



# साप्ताहिक विच्छेदित पाठ्यक्रम

मई 2024-मार्च 2025

कक्षा-11

विज्ञान संकाय

एकीकृत  
शैक्षणिक कैलेंडर  
2024 के साथ  
समन्वित



सम्बंधित दस्तावेज एवं शैक्षणिक सामग्री  
के लिए QR कोड को SCAN करें।



झारखण्ड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, राँची  
Jharkhand Council of Educational Research and Training, Ranchi

# साप्ताहिक विच्छेदित पाठ्यक्रम 2024-25

कक्षा – 11

विज्ञान



झारखण्ड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, राँची  
Jharkhand Council of Educational Research and Training, Ranchi

**It is mandatory to conduct practical classes (As per the Syllabus) along with the respective lessons.**

## Chemistry

Month	Week	Period	Chapter
May (17 days)	May 1st, 2nd, 3rd, 4th & 5th (17 days)	18	1. Some basic concepts of chemistry
June (16 days)	June 1st, 2nd & 3rd (6 days)		
	June 4th & 5th (10 days)	20	2. Structure of atom
July (25 days)	1st (6 days)		
	2nd (6 days)	12	3. Classification of elements and periodicity in properties
	3rd (4 days)		
	4th & 5th (9 days)		
August (24 days)	1st (3 days)	20	4. Chemical bonding and molecular structure
	2nd (6 days)		
	3rd (5 days)		
	4th & 5th (10 days)		
September (20 days)	1st & 2nd (5 days)	23	5. Thermodynamics
	3rd & 4th (8 days)		
	5th & 6th (7 days)		
October (21 days)	1st & 2nd (6 days)	20	6. Equilibrium
	3rd (6 days)		
	4th (6 days)		
	5th (3 days)		
November (21 days)	1st & 2nd (5 days)	9	7. Redox reactios
	3rd & 4th (11 days)		
	5th (5 days)	20	8. Organic chemistry- some basic principles and techniques
December (19 days)	1st & 2nd (6 days)		
	3rd (5 days)		
	4th, 5th & 6th (8 days)		
January (20 days)		18	9. Hydrocarbons
February (20 days), March (21 days) till board examination			Revision & Test
Total Working Days - 224 Days (Tentative)			